

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ने लोकल एक्सेसिबिलिटी चैंपियनों को 2021 के एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स के विजेताओं के तौर पर सम्मानित किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 जून, 2021) – कल, [नैशनल एक्सेसिबिलिटी वीक \(National AccessAbility Week\)](#) के दौरान, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपने 2021 के एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स (Accessibility Awards) के विजेताओं की घोषणा की। सम्मानित किए गए व्यक्तियों और संगठनों ने, विकलांग लोगों की सुलभता और भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है और वे ब्रैम्पटन की कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।

आज की ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) की मीटिंग में, निम्नलिखित एक्सेसिबिलिटी चैंपियनों को सम्मानित किया गया था:

### मिशेल मैकलोएड – कम्युनिटी मेम्बर श्रेणी

मिशेल (Michelle), कम्युनिटी में अर्थपूर्ण ढंग से एकीकृत होने, मनोरंजन, खाली समय और ज़िंदगी संबंधी कौशलों को विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने में क्लाइट्स की मदद करती हैं। वे उनकी हिमायत करती हैं और उनका उद्देश्य उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। मिशेल को रुकावटों की रोकथाम और उन्हें दूर करने; विकलांग लोगों को समाज में सहज महसूस कराने; विकलांग लोगों के लिए रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करने; उन्हें खास ग्राहक सेवा प्रदान करने; और आत्मनिर्भरता से जीने में सहायता प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है।

### केरीज प्लेस ऑटिज्म सर्विसिज – कम्युनिटी संगठन या गैर-लाभ श्रेणी

केरीज प्लेस ऑटिज्म सर्विसिज (Kerry's Place Autism Services) ने मनोरंजन वाली जगहों में हिस्सा लेने जैसी रुकावटों को दूर करने सहित, ब्रैम्पटन की कम्युनिटी के लिए अपनी सेवाओं और सहायता में वृद्धि करना जारी रखा, विशेषकर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर (Autism Spectrum Disorder) वाले व्यक्तियों के लिए सुलभता को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करने में। कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान, केरीज प्लेस ने सुरक्षित और अर्थपूर्ण ढंग से कम्युनिटी भागीदारी को कायम रखने के लिए कई जगहों को शामिल किया। उन्हें रुकावटों की रोकथाम और उन्हें दूर करने; विकलांग लोगों को समाज में सहज महसूस कराने; सुलभता एम्बेस्डर के तौर पर काम करने; विकलांग लोगों के लिए रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करने; उन्हें खास ग्राहक सेवा प्रदान करने; और आत्मनिर्भरता से जीने में सहायता प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है।

### सी.एस.आर, वेल्थ मैनेजमेंट – ब्रैम्पटन बिजनेस श्रेणी

फ्रैंक गैस्पर (Frank Gasper), रजिस्टर्ड डिसएबिलिटी सेविंग्स प्लान्स (आर.डी.एस.पी.) (Registered Disability Savings Plans) (RDSPs) में विशेषज्ञता वाले एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। उन्हें विकलांग लोगों को समाज में सहज महसूस कराने और उन्हें खास

ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। वे कई लोगों के पास गए, जागरूकता फैलाने के लिए सेशन आयोजित किए और वे ऐसी प्रोफाइल, जो आर्थिक तौर पर स्थिर भविष्य को सुनिश्चित कर पाए, बनाने और उसे अनुकूलित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने के लिए खुद को समर्पित करके, विकलांग लोगों को बेहतर अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

### **एम्ब्रेस – एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम/इन्शीएटिव श्रेणी**

मिशेल बुकलैंड (Michelle Buckland) ने 2010 में एम्ब्रेस (EMBRACE) की स्थापना की थी। उन्होंने लोगों के कौशलों को उजागर करने के लिए इसकी स्थापना की थी, ताकि वे अपनी योग्यताओं और शक्तियों को शामिल कर पाएं। साथ ही उन्होंने निजी और पेशेवर विकास, सुलभता एकीकरण और प्रभावशाली स्पीचों के द्वारा, उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने हेतु इसकी स्थापना की। मिशेल, एम्बेस्डर और एडवोकेट बनने के लिए समर्पित हैं और उनका उद्देश्य है, “जिंदगीभर हमारी सीमाएं केवल वही होती हैं, जो हम जानबूझकर तय करते हैं।” मिशेल को रुकावटों की रोकथाम और उन्हें दूर करने; विकलांग लोगों को समाज में सहज महसूस कराने; विकलांग लोगों के लिए रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है।

ब्रैम्पटन एक मोजैक है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपनी विविध कम्युनिटी में सभी के लिए, सुलभता और भागीदारी की मज़बूत भावना को बढ़ाने के अवसर पहचानने के लिए समर्पित है। 2018 में शुरू किए गए, एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स, रुकावटों की रोकथाम और उन्हें दूर करने; विकलांग लोगों को समाज में सहज महसूस कराने; सुलभता एम्बेस्डर के तौर पर काम करने; विकलांग लोगों के लिए रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करने; उन्हें खास ग्राहक सेवा प्रदान करने; और आत्मनिर्भरता से जीने में सहायता प्रदान करने वाले एक्सेसिबिलिटी चैंपियनों की उपलब्धियों और उनके द्वारा दिए गए योगदानों को, इस वर्ष नई श्रेणी, सुलभ प्रोग्रामों या पहलकदमियों को उजागर करते हैं।

सिटी और इसकी [एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी \(Accessibility Advisory Committee\)](#) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर उम्र और योग्यताओं वाले लोगों को ब्रैम्पटन में रहने, काम करने, खेलने, आने और निवेश करने के समान अवसर मिलते हैं। सिटी में सुलभता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।

एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स अधिक जानकारी और विजेताओं के बारे में और जानने के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जाएं।

### **हवाले**

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और सिटी, हमारी विविध कम्युनिटी में सभी के लिए, सुलभता और भागीदारी की मज़बूत भावना को बढ़ाने के लिए समर्पित है। 2021 के एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड विजेताओं का धन्यवाद, जो ब्रैम्पटन में सुलभता के लिए चैंपियन के तौर पर काम कर रहे हैं और निवासियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने उनका नामांकन करके उनके प्रयासों को सम्मानित किया। हमारी सिटी को सभी के लिए भागीदारी वाला बनाने के लिए संपूर्ण कम्युनिटी को प्रयास करना पड़ता है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और रीजन ऑफ पील की एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर के तौर पर, मुझे गर्व है कि ब्रैम्पटन के निवासी, हमारी कम्युनिटी को सबके लिए अधिक सुलभ और भागीदारी वाला बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये अवॉर्ड विजेता, विविधता के चैंपियन हैं और उनका काम, हमारे शहर में बदलाव ला रहा है। इकट्ठे काम करना जारी रखकर, हम हर योग्यता वाले लोगों के लिए ब्रैम्पटन को अधिक सुलभ बना सकते हैं।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; मेम्बर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, रीजन ऑफ पील एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम टर्म ऑफ काउंसिल प्राइरटी: ब्रैम्पटन एक मोजैक है, को आगे बढ़ाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर उम्र और योग्यताओं वाले लोगों को समान अवसर मिलते हैं। 2021 के एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड विजेताओं का धन्यवाद, जो ब्रैम्पटन में सुलभता को बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस नैशनल एक्सेसिबिलिटी वीक, सिटी को उन व्यक्तियों, कारोबारियों और संगठनों को सम्मानित करने पर गर्व है, जो विकलांग लोगों की सुलभता और भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)